

## मध्य प्रदेश मनोरंजन कर तथा विजापन कर अधिनियम 1936

[ क्रमांक 30 वर्ष 1936 ]

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. मनोरंजन कर ।
- 3-क. विजापन करारोपण ।
4. उद्ग्रहण की रीति ।
- 4-क. राज्य शासन को विजापन कर के संदाय की प्रतिक्रिया ।
- 4-ख. बिना भुगतान के अथवा रियायती दर पर प्रवेश पर प्रतिबन्धन ।
- 4-ख ख. वातानुकूलन या वायुशीतन की सुविधा के प्रभाव पर निबन्धन ।
- 4-ग. शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।
- 4-घ. अपील ।
5. शास्तियाँ ।
- 5-क. अपराधों का प्रशमन ।
- 5-ख. मनोरंजन के लिए अनुजप्ति का प्रतिसंहरण या निलम्बन ।
6. परोपकार्य अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये मनोरंजन ।
- 6-क. धार्मिक अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए विजापन
7. सामान्य छूट की शक्ति ।
8. नियम बनाने की शक्ति ।
9. प्रवेश तथा निरीक्षण ।
- 9-क. लेखाओं तथा दस्तावेजों का पेश किया जाना तथा निरीक्षण किया जाना और परिसरों की तलाशी ।
10. मनोरंजन कर के बकाया की वसूली ।
- 10-क. सदभावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण और वाद तथा अभियोजन पर निबन्धन ।
11. शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन ।
12. स्थानीय प्राधिकार द्वारा मनोरंजन कर के आरोपण पर रोक ।

## मध्य प्रदेश मनोरंजन कर तथा विज्ञापन कर अधिनियम 1936

[ क्रमांक 30 वर्ष 1936 ]

यह अधिनियम वर्ष 1936 में क्रमांक 30 पर सेन्ट्रल प्राविन्सेज तथा बरार में अधिनियमित हुआ । तब इसका संक्षिप्त नाम सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार एन्टरटेनमेन्ट्स एण्ड इयूटी ऐक्ट, 1936 था । तदनुसार इसके दीर्घ नाम तथा प्रस्ताव में सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार शब्दों का प्रयोग था । सन् 1920 में एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950, व्दारा अधिनियम के दीर्घ नाम तथा प्रस्तावना में सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार शब्दों के स्थान पर शब्द "मध्य प्रदेश" स्थापित किये गये । परन्तु अधिनियम का संक्षिप्त नाम ज्यों का त्यों बना रहा ।

[ धारा 1 वर्ष 1956 में वर्तमान मध्य प्रदेश बना । वर्ष 1957 में विधान सभा ने मध्य प्रदेश टेक्सेशन लाज (एक्सटेन्शन) ऐक्ट, 1957 (क्रमांक 18 वर्ष 1957) जो नवम्बर 1, 1957 को प्रवृत्त हुआ; के व्दारा इस अधिनियम में कई संशोधन किये गये तथा इस अधिनियम को सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रवृत्त कर दिया गया । इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम फिर भी ज्यों का त्यों रहा जो वर्ष 1960 में सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार एन्टरटेनमेन्ट्स इयूटी (ऐमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1960 (क्रमांक 14 वर्ष 1960) जो दिनांक 1-4-1960 को प्रवृत्त हुआ, के व्दारा इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम में सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार शब्दों के स्थान पर शब्द "मध्य प्रदेश" प्रतिस्थापित किये गये । अब इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "मध्य प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स इयूटी ऐक्ट, 1936 हो गया ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सफल करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता अनुभूत की गई । अधिक धन की पूर्ति के लिए मनोरंजन कर में वृद्धि तथा नये "विज्ञापनकर" का आरोपण प्रस्ताबित हुआ तदनुसार इस अधिनियम में संशोधन कर इसमें विज्ञापनकर सम्बन्धी प्रावधान जोड़े गये । संक्षिम नाम दीर्घ नाम तथा प्रस्तावना को प्रतिनिधिक बनाने के लिए उसमें संशोधन भी किया गया । इस तरह वर्ष 1965 में मध्य प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स इयूटी एमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1965 (क्रमांक 12, 1965) जो दिनांक 1-4-1965 से प्रवृत्त हुआ, के व्दारा इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम में "इन्टरटेनमेन्ट्स इयूटी" शब्दों के तुरन्त बाद शब्द ""एण्ड एडवरटाइज मेन्ट्स टैक्स" अन्तः स्थापित किये गये । तब से अपने अधिनियम के संक्षिम नाम से वर्तमान रूप लिया है, (मध्य प्रदेश मनोरंजन कर तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936) ।

मध्य प्रदेश में मनोरंजनों में प्रवेश देने के सम्बन्ध में तथा ऐसे मनोरंजनों में प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों के कतिपय रूपों के सम्बन्ध में कर आरोपित करने के लिए अधिनियम ।

### प्रस्तावना

जबकि नाट्य शालाओं, छविगृहों तथा मनोरंजन के अन्य स्थलों पे प्रबेश के सम्बन्ध में कर तथा ऐसे मनोरंजनों के समय प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों के कतिपय रूपों के सम्बन्ध में कर, आरोपित करने के लिए प्रावधान करना अपेक्षित है;

यह एतद् व्दारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है,--

1. सक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम (मध्य प्रदेश) मनोरंजन कर [तथा विजापन कर] अधिनियम, 1936 कहा जा सकेगा

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में होगा ।

(3) यह मध्य प्रदेश के ऐसे सभी - क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा जिनमें वह मध्य प्रदेश कर विधि (विस्तार) अधिनियम, 1957 के प्रवृत्त होने के सद्य पूर्व प्रभावशील तथा कथित अधिनियम के प्रवृत्त होने पर उन क्षेत्रों में प्रभावशील होगा जिनमें कथित अधिनियम की धारा 6 द्वारा निरस्त कोई अनुरूप विधान प्रभावशील था तथा किन्हीं भी क्षेत्रों में ऐसे दिनांकों को जैसे कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रभाव में लाया जा सकेगा ।

2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय अथवा सन्दर्भ में प्रतिकूल न हो

(क) 'मनोरंजन में प्रवेश' में समाविष्ट है किसी स्थान में प्रवेश जिसमें मनोरंजन आयोजित हो;

[(क क) 'विजापन' से अभिप्रेत है म. प्र. सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का क्र.

17) के अन्तर्गत अनुजा प्राप्त छविगृह में अथवा मनोरंजन के किसी अन्य स्थान पर पर्दे पर प्रदर्शित स्लाइड अथवा चलचित्र के माध्यम से किन्हीं वस्तुओं, सम्पत्ति, मनोरंजन व्यापार धन्धा अथवा व्यवसाय की सूचना अथवा अभिजापन ;

[(क क क) 'विजापन कर' से अभिप्रेत है धारा 3-क के अन्तर्गत आरोपित एवं देयकर;

(ख) 'मनोरंजन' में समाविष्ट है कोई प्रदर्शन, अनुष्ठान विनोद खेल अथवा क्रीड़ा जिसमें व्यक्तियों को भुगतान के बदले प्रवेशित किया जाता हो;

[(ग) 'मनोरंजन कर' से अभिप्रेत है धारा 3 के अन्तर्गत आरोपित कर ' (.....) ।

[(ग ग) 'स्थानीय क्षेत्र' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अर्थ के अन्तर्गत कोई नगरपालिका क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र नगर क्षेत्र अथवा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अर्थ के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र अथवा छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का सं० 2) के अर्थ के अन्तर्गत कोई छावनी अथवा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अर्थ के अन्तर्गत कोई ग्राम;

(घ) "प्रवेश के लिए भुगतान" के अन्तर्गत है

(एक) कोई भुगतान जो मनोरंजन के किसी स्थान में सीटों या अन्य स्थान सुविधा के लिये किसी भी रूप में किया जाये;

(दो) कोई भुगतान जो मनोरंजन के किसी कार्यक्रम या कथासार (सिनेमास) के लिये किया जाय;

(तीन) कोई भुगतान, जो किसी ऐसे उपकरण या यन्त्र के जिससे कोई व्यक्ति सामान्य या अधिक अच्छी तरह से मनोरंजन के ऐसे दृश्य देख सकें या उसकी ध्वनि सुन सकें या उसका आनन्द ले सकें, उधार लेने या उपयोग के लिये किया जाये जो वह व्यक्ति ऐसे उपकरण या यंत्र की सहायता के बिना प्राप्त नहीं कर मकता;

(चार) कोई भुगतान जो मनोरंजन से सम्बन्धित किसी भी प्रयोजन के लिये हो और किसी

भी नाम से जात हो, जिसे मनोरंजन में उपस्थित होने या उप- स्थित बने रहने की शर्त के रूप में, या तो मनोरंजन में प्रवेश के लिये किसी भुगतान, यदि कोई हो, के अतिरिक्त या मनोरंजन में प्रवेश के लिए बिना किसी ऐसे भुगतान के अतिरिक्त किसी रूप में करने की अपेक्षा किसी व्यक्ति से की जाये;

(पांच) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान मनोरंजन स्थल के एक भाग में प्रवेश दिये जाने के पश्चात् उसके अन्य भाग में प्रदेश दिया जाता है जिसमें प्रवेश के लिए कर या अधिक भार सहित भुगतान करना अपेक्षाएं

**स्पष्टीकरण** - किसी मनोरंजन के सम्बन्ध में कसा भा रूप में लिया गया अभिदाय या संग्रहीत किया गया संदाय प्रवेश के लिए भुगतान समझा जाएगा-

(ड़:) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमो द्वारा विहित; तथा

---

1. म० प्र० कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क० 9 सन् 1972) जो म० प्र० राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28-4-1972 को पृष्ठ 1472 -1475 पर प्रकाशित हुआ द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. 'या अतिरिक्त शुल्क' शब्दों का लोप अधिनियम क्र० 8 सन् 1982 द्वारा किया गया ।
3. म० प्र० अधिनियम क्रमांक 3 सन् 1991 द्वारा अन्तस्थापित तथा म० प्र० राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1 फरवरी 1991 के पृष्ठ 313 से 314 (5) पर प्रकाशित ।

(च) "स्वामी" में, किसी मनोरंजन के सम्बन्ध में, समाविष्ट से उसके प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी अथवा उसके प्रबन्ध का तत्समय प्रभारी कोई भी व्यक्ति;

(छ) "बीडियो कैसेट रिकार्डर या वी० सी० आर" से अभिप्रेत है कोई ऐसा उपकरण जो ध्वनि और चित्र का श्याम-स्वेत तथा रंगीन दोनों प्रकार का अभिलेखन चुम्बकीय फीते पर करने के लिये और जब आवश्यकता हो तो उन्हें दूरदर्शन के परदे पर पुनः प्रदर्शित करने के लिये या अन्य मशीनों पर अभिलिखित किये गये फीते तथा चलचित्रों के पूर्व अभिलिखित कैसेट दूरदर्शन परदे पर प्रति प्रदर्शित (प्ले बैंक) करने के लिए डिजायन किया गया हो और जो रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारणों के प्रेषण (ट्रान्समिशन) और अभिग्रहण (रिसेप्शन) के लिए उसके साथ आर० एफ० ट्यूनर सेक्शन या मानीटर लगा दिये जाने पर मध्य प्रदेश सिनेमा रेग्यूलेशन एक्ट, 1952 (क्रमांक 17 सन् 1952) के अधीन सम्यक् रूप से अनुजप्त किया जाता है, (और उसके अन्तर्गत है वीडियो कैसेट प्लेयर);

[(ज) "वीडियो कैसेट प्लेयर या वी० सी० पी०" से अभिप्रेत है कोई ऐसा उपकरण जो ध्वनि और चित्र का श्याम श्वेत तथा रंगीन दोनों प्रकार का पुनः प्रदर्शन चुम्बकीय फीते पर करने के लिए और जब आवश्यकता हो तो उन्हें दूरदर्शन के परदे पर पुनः प्रदर्शित करने के लिये या अन्य मशीनों पर अभिलिखित किए गये फीते तथा चलचित्रों के पूर्व अभिलिखित कैसेट दूरदर्शन परदे पर प्रति प्रदर्शित (प्ले बैंक) करने के लिए डिजायन किया गया हो और जो रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारणों के प्रेषण (ट्रान्समिशन) और अभिग्रहण (रिसेप्शन) के लिए

उसके साथ आर० एफ० ट्यूनर सेक्शन या मानीटर लगा दिये जाने पर मध्य प्रदेश सिनेमा रेन्यूलेशन ऐक्ट, 1952 (क्रमांक 17 सन् 1952) के अधीन सम्यक रूप से अनुजप्त किया जाता है । ]

### 3. मनोरंजन कर-

[(1) (क) वीडियो कैसेट रिकार्डर (जो इसमें इसके पश्चाद वी० सी० आर० के नाम से निर्दिष्ट है) या वीडियो कैसेट प्लेयर (जो इसमें इसके पश्चात् वी० सी० पी० के नाम से निर्दिष्ट है) द्वारा मनोरंजन से भिन्न किसी मनोरंजन का प्रत्येक मालिक, मनोरंजन में प्रवेश के लिए प्रत्येक भुगतान के सम्बन्ध में, राज्य सरकारें को उस भुगतान के 100 प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान करेगा :

परन्तु मनोरंजन में प्रवेश के लिए पचास पैसे से अधिक के किसी भुगतान के सम्बन्ध में कोई शुल्क उस दशा में के सिवाय देय नहीं होगा जबकि ऐसा भुगतान किसी स्थाई संरचना में होने वाले चलचित्र प्रदर्शन में प्रवेश के लिये हो :

परन्तु यह और भी कि किसी मनोरंजन के मालिक द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष में 1 मार्च से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर तक की कालावधि के दौरान वातानुकूलित और वायुशीतन की सुविधा प्रदान करने के लिये भारित 10 पैसा प्रति टिकिट तक अतिरिक्त प्रभार के लिए कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा;

(ख) नीचे दी गई सारिणी के कालम (1) में उल्लिखित जनसंख्या बाले नगर में और उक्त सारिणी में उल्लिखित परदे के आकार पर वी० सी० आर० द्वारा किए गए किमी मनोरंजन का प्रत्येक मालिक, राज्य सरकार, को प्रतिमास उस दर से जो सारिणी के कालम (2) मौर (3) में की तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है शुल्क का भुगतान करेगा :

#### सारिणी

क्रमांक	जन-संख्या	परदे का आकार	
		51 सेंटीमीटर तक (रुपये प्रतिमाह)	[15 से.मी. से अधिक (रुपये प्रतिमाह)]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	10,000 तक	(अ) 2626.00	(अ) 3937.00
		(आ) 1125.00	(आ) 1687.00
2.	10,001 से	(अ) 3375.00	(अ) 5062.00
	20,000 तक	(आ) 1687.00	(आ) 2530.00
3.	20,001 से	(अ) 4500.00	(अ) 6750.00
	50,000 तक	(आ) 2250.00	(आ) 3375.00
4.	50,001 से	(अ) 6000.00	(अ) 9000.00
	1,00,000 तक	(आ) 3000.00	(आ) 4500.09
5.	1,00,000 से अधिक	समस्त श्रेणियों के प्रत्येक टिकिट के विक्रय पर 100 प्रतिशत	समस्त श्रेणियों के प्रत्येक टिकिट के विक्रय पर 100 प्रतिशत

- जहाँ सिनेमा है ।  
जहाँ सिनेमा नहीं है ।

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना व्दारा, शुल्क में वृद्धि या कमी ऐसे अन्तराल में कर सकेगी जो दो वर्ष से कम न हो, जहाँ दर से वृद्धि की जाती है वहाँ वह तत्समय प्रवृत्त दर के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त परन्तुक के अधीन की प्रत्येक अधिसूचना विधान सभा से पटल पर रखी जायेगी और मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1938) की धारा 24-क के उपबन्ध उसको उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी नियम को लागू होते हैं ।

(1-क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई शुल्क उस मास के ठीक आगामी मास से देय नहीं होगा जिसमें ऐसा मालिक वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वी० सी० आर० का प्रदर्शन बन्द कर देता है और उस प्रभाव की लिखित सूचना ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रारूप में देता है और ऐसे निबन्धनों और शर्तों को पूरा कर देता है जैसा विहित किया जाये

(1-ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन देय शुल्क ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को और ऐसी रीति में भुगतान किया जायेगा या उसके व्दारा संग्रहीत किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाये ।

(2) जहाँ किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान पिण्ड-राशि के माध्यम से किसी व्यक्ति को अभिदान अथवा अंशदान के रूप में देकर, अथवा सीजन टिकिट के लिए अथवा मनोरंजन की किसी शृंखला में अथवा एक निश्चित कलावधि में किसी मनोरंजन में, प्रवेश के अधिकार के लिये देकर, अथवा बिना अतिरिक्त भुगतान के अथवा घटाये हुये प्रभार पर किसी मनोरंजन में प्रवेश के अधिकार के साथ संयुक्त अथवा प्रवेश के ऐसे अधिकार को संग्रहित करते हुये किसी विशेषाधिकार, सुविधा अथवा वस्तु के लिये देकर, किया जावे तो मनोरंजन कर ऐसे पिण्ड-राशि की मात्रा पर चुकाया जायेगा :

परन्तु जहाँ राज्य शासन की यह राय हो कि पिण्ड-राशि का भुगतान, मनोरंजन में प्रवेश के परे के किन्हीं अन्य विशेषाधिकारों अधिकारों अथवा प्रयोजनों के लिये भुगतान, का प्रतिनिधित्व करता है, अथवा किसी ऐसी अवधि में मनोरंजन के लिए प्रवेश को वेष्ठित करता है जिसमें कर प्रवर्तन में नहीं रहा है तो कर ऐसी राशि पर लिया जायगा जो राज्य शासन को ऐसे मनोरंजनों, जिनके सम्बन्ध में मनोरंजन, कर देय हो, में प्रवेश के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है ।

[(3) (क) [ उपधारा (1) के खण्ड (क)] के अधीन देय मनोरंजन शुल्क को संगणना करने में -

(एक) जहाँ देय शुल्क पचास पैसे से कम हो, वहाँ वह शुल्क पाँच पैसे के निकटतम उच्चतर

गुणित में रखा जायगा;

(दो) जहां देय शुल्क पचास पैसे से अधिक हो, वहां वह शुल्क पाँच पैसे के निकटतम उच्चतर गुणित में रखा जायगा;

(ख) प्रवेश सम्बन्धी ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में, जो दो रुपये से अधिक का हो किन्तु दो रुपये पांच पैसे से अधिक का न हो।, किन्तु मनोरंजन शुल्क की संगणना करने में पांच पैसे था उसके भाग पर ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

[ 3 क. विज्ञापन करारोपण - (1) किसी मनोरंजन में प्रदर्शित किये गये प्रत्येक विज्ञापन पर विज्ञापन कर नीचे विनिर्दिष्ट की गई दरों पर उद्ग्रहीत किया जायेगा तथा राज्य सरकार को चुकाया जायेगा -

(एक) (क) गत जनगणना के अनुसार एक लाख या उससे अधिक जन- संख्या वाले नगरों में ।	प्रतिदिन 1.00 रुपये के तथा एक मास के लिये 25.00 से अनधिक के अध्यधीन रहते हुये प्रत्येक खेल में प्रति स्लाइड के लिये 50 पैसे ।
(ख) अन्य क्षेत्रों में ।	प्रतिदिन 50 पैसे के तथा एक मास के लिये 12.50 रुपये से अनधिक के अध्यधीन रहते हुये प्रत्येक खेल में प्रति स्लाइड के लिये 25 पैसे ।
(दो) फिल्में तथा परिचय चित्र (ट्रेलर्स) ।	प्रतिदिन 2.00 रुपये के तथा एक मास के लिये 50.00 से अनधिक के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक खेल में प्रति फिल्मां प्रति परिचय चित्र (ट्रेलर) के लिये 75 पैसे ।

(2) स्वामी दारा विज्ञापन कर राज्य शासन को विहित रीति में चुकाया जायेगा ।

[4. उद्ग्रहण की रीति - (1) इस अधिनियम व्दारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय [बी सौ० आर० व्दारा मनोरंजन से भिन्न किसी भी मनोरंजन में किसी भी व्यक्ति को केवल ऐसे टिकिट से ही प्रवेश दिया जाएगा जो राज्य सरकार व्दारा जारी किये गये धारा 3 के अधीन देय शुल्क के बराबर के अभिहित मूल्य के निमुद्रित (इम्प्रेस्ड), उभरे हुये, उत्कीर्ण या चिपकाये जाने वाले स्टाम्प (जो पूर्व में प्रयोग में न लाया गया हो) से स्टाम्पित किया हुआ हो ।

[(1 - क ) का लोप किया गया ।]

[(2) राज्य सरकार, वी० सी. आर० व्दारा मनोरंजन से भिन्न किसी ऐसे मनोरंजन, जिसके कि सम्बन्ध में मनोरंजन शुल्क धारा 3 के अधीन देय हो, के किसी मालिक व्दारा आवेदन किये जाने पर ऐसे स्वामी को इस बात के लिये अनुज्ञात कर सकेगी कि वह शोध्य शुल्क की रकम का भुगतान एतद्धीन विनिर्दिष्ट किये गये ढंगों में से किसी एक ढंग से जिसे कि राज्य सरकार उचित समझे तथा ऐसी रीति में एव ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये करे

जैसा कि विहित किया जाये, अर्थात् -

(क) ऐसे प्रतिशत के, जो उस कुल राशि के, जो कि स्वामी ने मनोरंजन में प्रवेश सम्बन्धी भुगतानों के मुद्रे तथा राज्य सरकार व्दारा नियत किये जाने वाले शुल्क के मुद्रे प्राप्त की हो, चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, समेकित भुगतान व्दारा;

(ख) मनोरंजन में प्रवेश सम्बन्धी भुगतानों तथा शुल्क के मुद्रे भुगतानों की विवरणियों के अनुसार;

(ग) जिन व्यक्तियों को प्रवेश दिया गया हो, उनकी संख्या को स्वतः रजिस्टर करने वाली किसी यान्तिक प्रयुक्ति व्दारा अभिलिखित किये गये परिणामों के अनुसार;

[ (घ) धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के बदले में, नीचे दी गई सारिणी में उल्लिखित पद्धति के अनुसार संगणित शुल्क के ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, जैसी विहित की जाए, प्रशमन दारा-

#### सारिणी

अनुक्रमांक	जनसंख्या	प्रशमन किया गया मनोरंजन शुल्क
(1)	(2)	(3)
1.	किसी स्थानीय क्षेत्र की 25,000 तक ।	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 20 प्रतिशत ।
2.	किसी स्थानीय क्षेत्र की 25,001 के 50,000 तक ।	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 25 प्रतिशत ।
3.	किसी स्थानीय क्षेत्र की 50,001 से 1,00,000 तक ।	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 30 प्रतिशत

---

परन्तु प्रशमन किये गये शुल्क की रकम की कालम (3) में उल्लिखित दरों पर संगणना उन खेलों की विचार संख्या को विचार में लाये बिना जो उस मास में प्रदर्शित किये जाएँ, एक मास में केवल 90 खेलों के लिये की जायेगी ।

(ड.) मनोरंजन शुल्क के बदले में ऐसी राशि के, जो कि राज्य सरकार व्दारा या राज्य सरकार व्दारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी व्दारा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार नियत की जायगी जैसे कि विहित किये जाये, अग्रिम समेकित भुगतान व्दारा; और

(च) प्रवेश सम्बन्धी भुगतान, जिसमें उस पर शोध्य मनोरंजन शुल्क भी सम्मिलित है, के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार व्दारा विशेष रूप से मुद्रित किये गये उन टिकिटों के लिए, जिनका कि उपयोग मनोरंजन में प्रवेश के लिये किया जायेगा, अग्रिम समेकित भुगतान व्दारा ।]

[ (3) इस धारा की उपधारा (1) [ ..... ] तथा धारा 5 के उपबन्ध किसी ऐसे मनोरंजन

को, जिसके सम्बन्ध में दातव्य मनोरंजन शुल्क उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार देय हो, लागू नहीं होंगे । ]

[ (4) किसी मनोरंजन का स्वामी, ऐसे अभिलेख, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाय, बनाये रखेगा । ]

---

[ 4-क. राज्य शासन को विज्ञापन कर के संदाय की प्रक्रिया - (1) स्वामी, ऐसे समय पर तथा ऐसी रीति में तथा ऐसे अधिकारी को, जैसे कि विहित किये जारैं, मनोरंजन में प्रदर्शित विज्ञापनों की पूर्ण सख्त उल्लिखित करते हुए, एक विवरण अग्रेषित करेगा तथा। विहित समय पर ऐसे अधिकारी को उस मनोरंजन के लिए कर की राशि का भुगतान करेगा ।  
(2) स्वामी ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रारूप में ऐसे अभिलेख रखेगा जैसे कि विहित किये जाये । । ।

#### [4-ख. बिना भुगतान के अथवा रियायती दर पर प्रवेश प्रतिबन्धन -

---

कोई स्वामी [ वी० सी० आर० व्दारा मनोरंजन से भिन्न किसी भी मनोरंजन ] में किसी व्यक्ति को उसमें प्रवेश के लिये भुगतान के बिना अथवा रियायती दरों पर प्रवेशित नहीं करेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में देय मनोरंजन शुल्क उस वर्ग जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रवेशित किया गया है, के टिकिट के पूरे मूल्य पर [.....] नहीं चुकाया जा चुका हो ।  
[ परन्तु इस धारा में की कोई बात रियायती दरों पर प्रवेश के सम्बन्ध में -

- (क) व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को; तथा  
(ख) ऐसे मनोरंजन अथवा मनोरंजन के वर्ग को;  
लागू नहीं होगी जैसे कि राज्य शासन, अधिसूचना व्दारा निर्दिष्ट करे । ]

[4-खख वातानुकूलन या वायुशीतन की सुविधा के प्रभाव पर निबन्धन - वी० सी० आर० व्दारा मनोरंजन से भिन्न किसी मनोरंजन का कोई मालिक वातानुकूलन या वायुशीतन की सुविधा के लिए कोई प्रभार ऐसी सुविधा उपलब्ध कराये बिना नहीं लेगा । ]

[ 4 ग. शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति - यदि मनोरंजन में किसी स्थान का निरीक्षण करने पर या उन अभिलेखों एवं लेखाओं की तथा स्टाम्पों की उन स्टाकों की, जो कि किसी स्वामी व्दारा रखे जाते हों, परीक्षा करने के पश्चाद आबकारी आयुक्त या कोई अन्य अधि- कारी, जो राज्य सस्कार व्दारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया जाय, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस अधिनियम के अधीन देय मनोरंजन शुल्क या विज्ञापन कर का स्वामी व्दारा अपवंचन किया गया है, तो वह, स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ( उस शुल्क या कर का, जो कि स्वामी व्दारा देय हो, अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार निर्धारण ठीक पूर्वती ऐसी कालावधि के लिए, जो तीस दिन से अधिक की नहीं होगी, इस प्रकार कर सकेगा मानो कि ऐसा अपवंचन ऐसी सम्पूर्ण कालावधि के दौरान होता रहा हो और वह यह निदेश दे सकेगा कि स्वामी इस प्रकार अवधारित किये गये यथास्थिति शुल्क या कर

की रकम के अतिरिक्त ऐसी राशि का, जो कि किसी कलेपड़र वर्ष में ऐसे प्रथम अपवंचन के लिए, उस रकम के आधे के बराबर होगी तथा उसी वर्ष में द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपवंचन के लिए, उस रकम के दुगुने से से अधिक नहीं होगी किन्तु आधे से कम नहीं होगी, शक्ति के रूप में भुगतान करे ।

### तालिका

रकम	शुल्क या कर और शास्ति का अनुपात
(1)	(2)
जहां शुल्क या कर और शास्ति की रकम एक हजार रुपयों से अधिक हो ।	शुल्क या कर और शास्ति की पूरी रकम ।
जहां शुल्क या कर और शास्ति की रकम एक हजार रुपयों से अधिक हो	एक हजार रुपये या शुल्क या कर और शास्ति की रकम का एक तिहाई, जो भी अधिक हो ।

[ 5 क. अपराधों का प्रशमन - (1) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि विहित की जावे आबकारी आयुक्त अथवा आबकारी विभाग का ऐसा अन्य अधिकारी जैसा कि राज्य शासन व्दारा इस बारे में प्राधिकृत किया जावे -

(क) मनोरंजन कर अथवा विज्ञापन कर, जिनका धारा 3 अथवा 3-क, जैसी स्थिति हो, के अन्तर्गत भुगतान किया जाना चाहिये था की राशि [ बीस गुने ] से अनाधिक धन को स्वीकार कर इस अधिनियम के अन्तर्गत के किसी भी अपराध का प्रशमन कर सकेगा ।

(ख) [पांच हजार] रुपयों से अनाधिक धन को स्वीकार कर, इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों को भंग करने से सम्बन्धित किसी भी अपराध का प्रशमन कर सकेगा ।

(2) अपराध के प्रशमन पर उसके अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध उसके सम्बन्ध से आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा यदि किसी न्यायालय में पहले ही से उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, तो प्रशमन ऐसे व्यक्ति की दोष-मुक्ति का प्रभाव रखेगा ।

[ 5-ख. मनोरंजन के लिए अनुजप्ति का प्रतिसंहरण या निलम्बन- (1) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर या आबकारी आयुक्त आदेश व्दारा किसी मनोरंजन के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मंजूर की गई किसी अनुजप्ति की दण्ड के तौर पर तीन माह से अनधिक कालावधि के लिये प्रतिसंहत या निलम्बित कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मालिक ने-

(क) किसी व्यक्ति को मनोरंजन के किसी स्थान में शुल्क या कर का भुगतान किये बिना प्रवेश

दिया है; या

- (ख) उससे शोध्य किसी शुल्क या कर का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया है; या
- (ग) इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी शुल्क या कर के भुगतान का कपटपूर्वक अपवंचन किया है; या
- (घ) किसी अधिकारी को अभिलेखों का निरीक्षण करने में बाधा पहुँचाई है; या
- (ड) इस अधिनियम के अधीन ऐसा निरीक्षण करने वाले किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये अपेक्षित अभिलेख पेश नहीं किया है; या
- (च) इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबन्धों का या किसी ऐसे उपबन्ध के अधीन जारी किये गये किसी आदेश या निर्देश का उल्लंघन किया है परन्तु जहां उपरोक्त अधिकारियों में से किसी एक ने इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है वहाँ दूसरे अधिकारी को उसी विषय के सम्बन्ध में तत्पश्चात् वर्ती कार्यवाहियां यदि प्रारम्भ की गई हैं, प्रभावहीन हो जायेगी तथा बन्द कर दी जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अनुजप्ति को प्रतिसंहत या निलम्बित करने का कोई आदेश, अनुजप्ति के धारक को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु कलेक्टर या आबकारी आयुक्त की यह राय है कि की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य विलम्ब के कारण विफल हो जायेगा तो वह अनुजप्ति के धारक को वे आधार, जिन पर कार्यवाही प्रस्तावित हैं, संसूचित करते समय या उसके पश्चात् अनुजप्ति निलम्बित करते हुये, अन्तरिम आदेश पारित कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी अनुजप्ति के प्रतिसंहरण या निलम्बन के किसी आदेश से व्यथतः कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश संसूचित किये 'जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, राज्य सरकार को, ऐसी रीति में अपील प्रस्तुत कर सकेगा जो विहित की जाये और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा

**6. परोपकार्य का अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये मनोरंजन-** (1) यदि [कलेक्टर] सन्तुष्ट हो कि-

- (क) मनोरंजन की सम्पूर्ण आय, आय पर मनोरंजन के किन्हीं भी खर्चों के प्रभार के बिना परोपकारी अथवा धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए समर्पित है; अथवा
- (ख) मनोरंजन पूर्णतः शैक्षणिक प्रकृति का है, अथवा
- (ग) मनोरंजन, लाभ के लिये न संचालित अथवा स्थापित संघ, संस्था अथवा समिति द्वारा आशिक रूप से शैक्षणिक और आशिक रूप से वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये दिया जाता है, तो उस मनोरंजन में प्रवेश के लिये भुगतान पर मनोरंजन कर उद्घाटित नहीं किया जाएगा।

1 जहां [कलेक्टर] सन्तुष्ट हो कि मनोरंजन का सम्पूर्ण शुद्ध आगम परोपकारी अथवा धार्मिक प्रयोजनों के लिये समर्पित किया जा चुका है अथवा किया जाना है और मनोरंजन के समस्त व्यय प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो ऐसे मनोरंजन के सम्बन्ध में परिदृष्ट मनोरंजन कर की राशि स्वामी को प्रत्यर्पित कर दी जायेगी।

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (1936 का सं० 30) की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार फ़िल्म सोसायटीयों/फ़िल्म क्लबों व्यारा प्रदर्शित की जाने वाली फ़िल्मों को उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एतद्वारा छूट प्रदान करती है-

1. केवल ऐसी सोसायटीयों/क्लब ऐसी छूट के पात्र होंगे, जो फ़र्म्स और सोसायटीज ऐक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों ।
2. फ़िल्म केवल सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो उनके कुटुम्ब के वास्तविक सदस्य हों, को ही प्रदर्शित की जायगी ।
3. प्रदर्शित की जाने वाली फ़िल्म की विनिर्दिष्ट विशिष्टियां देते हुये प्रदर्शन की तारीख, समय और स्थान की सूचना कम से कम तीन दिन अग्रिम में सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी और कलेक्टर को दी जायगी ।
4. यदि फ़िल्म के प्रदर्शन के लिये सदस्यों से कोई रकम संग्रहित की गई हो तो उसका हिसाब पृथक से रखा जायगा और सम्बन्धित कलेक्टराजिला आबकारी अधिकारी को उसके परीक्षण करने का अधिकार होगा ।

---

[ 7. सामान्य छूट की शक्ति - राज्य शासन सामान्य अथवा विशेष आदेश व्यारा -

- (एक) किसी मनोरंजनों अथवा मनोरजनों के वर्ग को धारा 3 की प्रभावशीलता से,  
(दो) किसी विज्ञापन अथवा विज्ञापनों के वर्ग की धारा 3-क की प्रभावशीलता से छूट दे सकेगा ।

8. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य शासन मनोरंजन कर ( तथा विज्ञापन )कर का संदाय सुरक्षित करने के लिए तथा सामान्यतः इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम से संगत, नियम बना सकेगा ।

- (2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य शासन -  
(क) मुद्रांकों अथवा मुद्रांकित टिकिटों के प्रदाय तथा प्रयोग के लिये, अथवा मुद्रांकन के लिए, भेजे गये टिकिटों को मुद्रांकित करने के लिये तथा जब प्रयुक्त हो जावें तो मुझकी का विरूपण सुनिश्चित करने के लिए;
- 

(ख) एक व्यक्ति से अधिक का प्रवेश वेष्ठित करने वाले टिकिट के प्रयोग तथा उस पर कर की संगणना के लिये, तथा मनोरंजन के स्थल के एक भाग से दूसरे को अन्तरण पर तथा सीटों अथवा अन्य स्थान के लिये भुगतान पर कर के संदाय के लिये ;

(ग) मनोरंजन में प्रवेश सम्बन्धी भुगतान के लिये यान्त्रिक उपायों के प्रयोग के नियंत्रण (मिन्न राशि के भुगतान के लिये उसी यान्त्रिक उपाय के प्रयोग के निवारण को सम्मिलित करते हुये) के लिये, तथा ऐसे भुगतानों का उचित अभिलेख सुनिश्चित करने के लिये;

[ (ग-एक) बिलुप्त ।

(ग-दो) धारा 3 की उपधारा (1-क) के अधीन वह अधिकारी जिस और वह प्रारूप जिसमें सूचना दी जा सकेगी तथा वे तथा शर्तें जिनकी पूर्ति की जायेगी;

(ग-तीन) धारा 3 की उपधारा (1-ख) के अधीन वह रीति जिसमें तथा वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसको शुल्क चुकाया जा सकेगा या जिसके द्वारा वह संग्रहीत या वसूल किया जा सकेगा ।)

[(घ) (एक) ऐसे मनोरंजन के, जिनके कि सम्बन्ध में मनोरंजन शुल्क धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार देय है, स्वामियों द्वारा प्रवेशों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की जाने, उसके द्वारा लेखाओं को रखे जाने तथा विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने के लिये ।

(दो) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें जिनके कि अध्यधी न किसी स्वामी को धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने को अनुज्ञात किया जायेगा, विहित करने के लिये ।

(तीन) वे सिद्धान्त, जिनके कि अनुसार धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अनुसार समेकित भुगतान किया जा सकेगा, विहित करने के लिये ।

[(ङ.) वह समय विहित करने के लिये जिसके कि भीतर धारा 4-घ की उपधारा (1) के अधीन अपील की जायगी ।

(च) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रयुक्त समस्त मुद्राकों का हिसाब रखने के लिये ।

---

(छ) मनोरंजन शुल्क [अथवा विज्ञापन कर] के संदाय से छूट के प्रार्थना-पत्रों के प्रस्तुतीकरण तथा निपटारे के लिए अथवा उसके प्रत्यर्पण के लिए; तथा

(ज) गणवेष में ब्रिटिश सैनिकों की मनोरंजन कर से मुक्ति के लिये;

[(ज-1) समय जिस पर तथा ढंग जिसमें तथा अधिकारी जिसको स्वामी द्वारा विज्ञापन कर का भुगतान किया जायेगा, विहित करने के लिए ।

(ज-2) समय जिस पर तथा ढंग जिसमें तथा अधिकारी जिसको विवरण अग्रेषित किया जायेगा, विहित करने के लिये;

(ज-3) अभिलेख तथा वह प्रारूप तथा वह ढंग जिसमें स्वामी द्वारा ऐसा अभिलेख रखा जायेगा, विहित करने के लिये;

(ज-4) वे शर्तें अधिकथित करने के लिए, जिनके कि अध्यधीन रहते हुये आबकारी आयुक्त या कोई प्राधिकृत अधिकारी स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह धारा 9-क की उपधारा (1) के अधीन लेखे, रजिस्टर तथा दस्तावेज पेश करे या कोई जानकारी दे;

[(झ) किसी अन्य विषय-वस्तु के लिये जो विहित की जानी हो अथवा की जावे ।

(3) समस्त नियम पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन होंगे ।

(4) कोई नियम बनाने में राज्य शासन निर्देश दे सकेगा कि उसका उल्लंघन ऐसे जुर्माने

से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, टप्पडनीय होगा ।

[(5) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएँगे ।"

**9. प्रवेश तथा निरीक्षण -** (1) राज्य शासन किसी भी अधिकारी को जो पुलिस के उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, मनोरंजन के किसी भी स्थान में जबकि मनोरंजन चल रहा हो, अथवा किसी भी ऐसे स्थान में जो साधारणतः मनोरंजन के स्थान के रूप में प्रयुक्त होता हो, किसी भी उचित समय पर यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या उसमें इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा उनके अन्तर्गत बने किसी नियम का उल्लंघन है, प्रवेश करने तथा निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक मनोरंजन का स्वामी अथवा मालिक अथवा साधारणतः मनोरंजन के स्थान के रूप में प्रयुक्त किसी भी स्थान का प्रभारी व्यक्ति निरीक्षण करने वाले

[ धारा 9-क अधिकारी को उपधारा (1) के अन्तर्गत उसके कर्तव्यों के पालन में प्रत्येक उचित सहयोग देगा ।

(3) निरीक्षण करने वाले अधिकारी से किसी मनोरंजन में उसके प्रवेश के लिये भगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

---

[ **10 मनोरन्जन शुल्क आदि के बकाया की वसूली** - उस मनोरन्जन शुल्क का या उस विज्ञापन कर का या किसी ऐसी शास्ति का, जिसका कि उद्ग्रहण इस अधिनियम के अधीन किया जाता हो या किसी ऐसी राशि का, जो धारा 5-क के अधीन अपराध के समन के सम्बन्ध में देय हो (अन्त-स्थापित) कोई बकाया भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा ।

#### टिप्पणी

**वसूली का उपबन्ध** - शेष भू-राजस्व की वसूली सम्बन्धी उपबन्ध के लिए म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 155 देखिये ।

**[10 क. सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण और बाद तथा अभियोजन पर निबन्धन-** (1) राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध, किसी भी ऐसे कार्य के लिए, जो कि अधिनियम के अधीन किया गया हो या जिसका इस अधिनियम के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही राज्य सरकार की पूर्व मन्सूरी के बिना नहीं होगी ।

(2) राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी या सेवक किसी सिविल या दाण्डिक कार्य- वाही में किसी भी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में दायी नहीं होगा यदि वह कार्य इस अधिनियम के व्दारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निष्पादन के अनुक्रम में या इस अधि- नियम के व्दारा या उसके अधीन उसको सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के अनुक्रम में सद्भाव पूर्वक किया गया हो ।

(3) किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में जो कि इस अधिनियम के अधीन की गई हो या जिसका उस तरह किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद राज्य सरकार के विरुद्ध

संस्थित नहीं किया जायेगा तथा कोई भी अभियोजन या बाद राज्य सरकार के सेवक के विरुद्ध संस्थित नहीं किया जायेगा यदि ऐसा वाद या अभियोजन उस कार्य की, जिसकी कि शिकायत की गई हो तारीख से तीन मास के भीतर संस्थित ने कर दिया गया हो परन्त इस उपद्रव पर के अधीन परिसीमा की कालावधि की संगणना करने में वह समय जो उपधारा (1) के अधीन मकरी अभिप्राप्त करने में लगा हो छोड़ दिया जायेगा ।

---

**11 शक्तियाँ और कार्यों का प्रत्यायोजन -** राज्य शासन ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि वह लगाना ठीक समझे, इम अधिनियम के अन्तर्गत अपनी अथवा कोई भी शक्तियाँ तथा कार्य कि सी भी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(दो) म० प्र० मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर नियम, 1942 के नियम 16-के, आबकारी आयुक्त म० प्र० को ।

[ 12 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मनोरंजन कर के आरोपण पर रोक - (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में किसी भी बात के होते हुये भी, मध्य प्रदेश कराधान विधि (विस्तारण) अधिनियम, 1957 के प्रवर्तन में आने 'के दिनांक को या उसके पश्चात्, कोई स्थानीय प्राधिकारी, किसी मनोरंजन पर या उसके सम्बन्ध में, ऐसे दिनांक के पश्चात् की किसी अवधि के सम्बन्ध में, शुल्क या कर आरोपित या वसूल नहीं करेगा ।

(2) राज्य शासन ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को, जिसने मध्य प्रदेश कराधान विधि (विस्तारण) अधिनियम, 1957 के प्रवर्तन में आने के पूर्व मनोरंजन के सम्बन्ध से कर या शुल्क आरोपित कर दिया था, ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जैसे कि इस बारे में विहित किये जावे, वार्षिक सहायक अनुदान देगा ।

[ (3) इस धारा में की गई कोई बात किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत आरोपणीय प्रदर्शन कर के आरोपण पर लागू नहीं होगी- स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'प्रदर्शन कर' से अभिप्रेत है प्रत्येक-प्रदर्शन अथवा अनुष्ठान के लिये निश्चित राशि के रूप में मनोरंजन के स्वत्व पर आरोपणीय करे ।

“विज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



सत्यमेव जयते

पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97-स ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अप्रैल 2002—वैशाख 3, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3057/21-अ/प्रारूपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी हैं, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आई. एस. उचोबेजा, उप-सचिव,

**छत्तीसगढ़ अधिनियम**  
**(क्रमांक 16 सन् 2002)**

**छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2002**

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम, विस्तार, 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 16 सन् 2002) है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा।
- धारा 3 (ख) की सारणी 2. छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 3 (ख) में बदलाव सारणी निम्नांकित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :

**सारणी**

अ.क्र.	जनसंख्या	प्रति केवल कनेक्शन प्रतिमाह मनोरंजन शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	1 से 10,000 तक	निरंक
2.	10,001 से 50,000 तक	रुपये 10/-
3.	50,000 से अधिक	रुपये 20/-

रायपुर :

भारसाधक सदस्य

दिनांक :

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2002

क्रमांक 3057/21-अ/प्रारूपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अन्तर्गत में, छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 16 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव,

**CHHATTISGARH ADHINIYAM  
(No.16 of 2002)**

**THE CHHATTISGARH MANORANJAN KAR EVAM VIGYAPAN SHULK  
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002**

**An Act further to amend the Chhattisgarh Manoranjan Kar Evam Vigyapan Shulk Adhiniyam, 1936.**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (i) This Act may be called "The Chhattisgarh Manoranjan Kar Evam Vigyapan Shulk (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002" (No. 16 of 2002).</li> <li>     (ii) It extends to the whole of Chhattisgarh State.</li> <li>     (iii) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.</li> </ol> | <p><b>Short title, Extend and Commencement.</b></p> |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. The existing table in Section 3-B of the Chhattisgarh Manoranjan Kar Evam Vigyapan Shulk Adhiniyam, 1936 (No. 30 of 1936), shall be substituted by the following table :</li> </ol>   | <p><b>Substitution of Section 3-B.</b></p>          |


**TABLE**

S. No. (1)	Population (2)	Entertainment Tax per Cable Connection per month (3)
1.	1 to 10,000	Nil
2.	10,001 to 50,000	Rs. 10/-
3.	Above 50,000	Rs. 20/-

Raipur :

Member-in-charge

Dated :



“बिजनेस पोस्ट के अन्वर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति, क्रमांक जी, २-२२-छत्तीसगढ़ गजट/३८ सि. से. भिलाई, दिनांक ३०-५-२००१।”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सो. ओ./रायपुर/१७/२००२।”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक २२६ (द-२) ]

रायपुर, मंगलवार दिनांक ९ सितम्बर २००३—भाद्र १८, शक १९२५

---

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक ९ सितम्बर २००३

क्रमांक ५५७४/२१-अ/प्रारूपण/०३.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक ३-९-२००३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. वी. बाजपेयी, उप-सचिव,

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 18 सन् 2003)

### छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2003

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्र. 30 सन् 1936) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौबनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्र. 18 सन् 2003) है।

(दो) यह दिनांक 1 मई, 2003 से प्रभावशील होगा।

धारा 3 का संशोधन.

2. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द “पचहत्तर प्रतिशत” के स्थान पर शब्द “तीस प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये, तथा

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित पैरा, अंतःस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

“(एक) 25 हजार (पच्चीस हजार) जनसंख्या तक के स्थानों में स्थित छविगृहों को मूल अधिनियम की धारा 3 (1) के प्रवर्तन से मुक्त रखा जायेगा।

(दो) छत्तीसगढ़ी बोली में निर्भित फिल्म को मूल अधिनियम की धारा 3 (1) से मुक्त रखा जायेगा।”

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाए एवं इसके स्थान पर निम्न परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“परन्तु यह और भी कि चलचित्र के प्रदर्शन सिनेमा हाल में किये जायें वहाँ उन व्यक्तियों को, जिन्हें उक्त सिनेमा हाल में प्रवेश दिया गया है, सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रवेश के लिए भुगतान के आधार पर जैरा कि कलेक्टर द्वारा अवधारित किया जाए, निम्न सारणी में दर्शित राशि से अनधिक किसी राशि पर शुल्क उद्याहित नहीं किया जायेगा।”

#### सारणी

अ. क्र.	सिनेमा का प्रकार	सेवा शुल्क की दरें (रुपये में) प्रति टिकिट
1.	साधारण सिनेमा हाल	रु. 2/-
2.	एयर कूलड डाल्बी, डी. टी. एस.	रु. 3/-
3.	एयर कंडीशन्ड, डाल्बी, डी. टी. एस.	रु. 4/-

धारा 4 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) का लोप किया जाये।

निरसन:

4. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश (क्रमांक 2 सन् 2003) एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर, 2003

क्रमांक 5574/21-अ/प्रारूपण/03.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण में छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्र. 18 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. वी. बाजपेयी, उप-सचिव.

**CHHATTISGARH ACT  
(No. 18 of 2003)**

**THE CHHATTISGARH ENTERTAINMENT DUTY AND ADVERTISEMENT TAX  
(AMENDMENT) ADHINIYAM, 2003**

An Act further to amend the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936  
(No. 30 of 1936).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty fourth year of the Republic of India as follows :-

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (i) This Act may be called the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax (Amendment) Act, 2003 (No. 18 of 2003).</li> <li>     (ii) It shall come into force with effect from 1st May, 2003.</li> </ol> | <i>Short title and Commencement.</i> |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. In sub-section (1) of section 3 of the Principal Act for the words "seventy five percentum" the words "Thirty percentum" shall be substituted, and</li> </ol>   | <i>Amendment of Section 3.</i>       |

After first proviso of sub-section (1) of section 3 of the Principal Act, the following para shall be inserted, namely :-

- "(i) The Cinema halls in a place having population upto 25,000 (Twenty five thousand) shall be exempted from operation of section 3 (1) of the Principal Act.
- (ii) A film made in Chhattisgadi dialect shall be exempted from operation of section 3 (1) of the Principal Act."

Second proviso of sub-section (1) of section 3 of the Principal Act shall be omitted and following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided further that where cinematographic exhibitions are carried out in cinema hall, no duty shall be levied on an amount, not exceeding as per mentioned in table specified below as may be determined by the collector on the basis of payment for admission

for providing facilities to persons admitted in the cinema hall."

TABLE

S. No.	Type of Cinema	Rates of Service Charges (in rupees) per ticket
1.	Normal Cinema Hall	Rs. 2.00
2.	Air cooled, Dolby, D. T. S.	Rs. 3.00
3.	Air conditioned, Dolby, D. T. S.	Rs. 4.00

**Amendment of Section 4.** 3. Clause (d) of sub-section (2) of section 4 of the Principal Act shall be omitted.

**Repeal.** 4. The Chhattisgarh Entertainment duty and Advertisement Tax (Amendment) Ordinance, 2003 (No. 2 of 2003) is hereby repealed.

"बिजेस योस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001।"



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/रुग्र/  
सी.ओ./रायपुर/17/2002।"

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 मार्च 2004—फाल्गुन 21, शक 1925

### विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2004

क्रमांक 1664/21-अ/प्रारूपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 8-3-04 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आई. एस. उबोवेजा, अतिरिक्त सचिव.

### छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2004)

### छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2004

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर, अधिनियम, 1936 (क्र. 30 सन् 1936) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ।
1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 है।
  - (दो) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है।
  - (तीन) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- धारा 4-द का संशोधन।
2. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्र. 30 सन् 1936) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 4-द की उपधारा (1) में शब्द “संभागीय राजस्व आयुक्त” के स्थान पर शब्द “आबकारी आयुक्त” प्रतिस्थापित किया जाये।

रायपुर

भारसाधक सदस्य

तारीख

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2004

क्रमांक 1664/21-अ/प्रारूपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्र. 3 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आई. एस. उबोवेजा, अतिरिक्त सचिव।

**CHHATTISGARH ACT  
(No. 3 of 2004)**

**CHHATTISGARH ENTERTAINMENT DUTY AND ADVERTISEMENT TAX  
(AMENDMENT) ACT, 2004**

**An Act further to amend the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Adhiniyam, 1936 (No. 30 of 1936).**


Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the fifty-fifth year of the Republic of India as follows :—

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) This Act may be called the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax (Amendment) Act, 2004.</li> <li>(ii) It extends to the whole of Chhattisgarh.</li> <li>(iii) It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.</li> </ul> | <b>Short Title, Extent and Commencement.</b> |
| 2. | <p>In sub-section (1) of section 4-D of the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Adhiniyam, 1936 (No. 30 of 1936) (Hereinafter referred to as the Principal Act) for the words "Commissioner of Revenue Division" the words "Excise Commissioner" shall be substituted.</p>                       | <b>Amendment of Section 4-D.</b>             |

Raipur,

**Member-in-charge**

Dated



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी.ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 1-द ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 जनवरी 2005— पौष 11, शक 1926

---

### विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक 7512/21-अ/प्राप्ति/04. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-12-2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 11 सन् 2004)

## छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2004

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्र. 30 सन् 1936) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.** 1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्र. 11 सन् 2004) है।

(दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

**धारा 3 का संशोधन.** 2. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्र. 30 सन् 1936) की धारा 3-ग का लोप किया जाये।

**निरसन.** 3. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्र. 3 सन् 2004) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्रमांक 7512/21-अ/प्रारूपण/04. —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.


CHHATTISGARH ACT  
(No. 11 of 2004)

THE CHHATTISGARH ENTERTAINMENT DUTY AND ADVERTISEMENT TAX  
(AMENDMENT) ACT, 2004

An Act, further to amend the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

- |    |   |                               |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | (i) This Act may be called the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax (Amendment) Act, 2004 (No. 11 of 2004).<br>(ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | Short title and Commencement. |
| 2. | Section 3-C of the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936) shall be omitted.   | Amendment of Section 3.       |
| 3. | Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax (Amendment) Ordinance, 2004 (No. 3 of 2004) is hereby repealed.   | Repeal.                       |



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2008—वैशाख 19, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक 4845/डी-132/21-अ/प्रारूपण/08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-04-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी हैं, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव,

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2008)

## छत्तीसगढ़ भनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ भनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम “छत्तीसगढ़ भनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008)” है।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
  - (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. छत्तीसगढ़ भनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के पैरा (एक) में शब्द एवं अंक “25 हजार (पच्चीस हजार)” के स्थान पर शब्द “एक लाख” प्रतिस्थापित किया जाय।

रायपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक 4845/डी-132/21-अ/प्रारूपण/08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव।

**CHHATTISGARH ACT  
(No. 9 of 2008)**

**THE CHHATTISGARH ENTERTAINMENT DUTY AND ADVERTISEMENT  
TAX (AMENDMENT) ACT, 2008**

**An Act further to amend the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-ninth year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax (Amendment) Act, 2008 (No. 9 of 2008). Short title, Extend and Commencement.
- (2) It extends to the whole of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In para (i) of first proviso of sub-section (1) of section 3 of the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), for the words and figure "25 thousand (twenty five thousand)" the words "One lakh" shall be substituted. Amendment of Section 3.



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. २२२ छत्तीसगढ़ गजट/३८ सि. से. भिलाई, दिनांक ३०-५-२००१।”

पंजीयन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/०९/२०१०-२०१२।”



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक १५७ ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक ३१ मई २०१०—ज्येष्ठ १०, शक १९३२

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक २९ मई २०१०

क्र. ५५९१/१२४/२१-अ/प्रा./छ. ग./१०.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक १३-०५-२०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव,

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2010)

## छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ।
1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2010' है।
  - (दो) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
  - (तीन) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- धारा 4-द का संशोधन।
2. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 4-द की उपधारा (1) में, शब्द "आबकारी आयुक्त" के स्थान पर शब्द "संभागीय राजस्व आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए।
  - उक्त अधिनियम में संशोधन।
  3. मूल अधिनियम में, जहां कहीं शब्द "केबल" आया है उसके स्थान पर शब्द "केबल/डी.टी.एच. (डायरेक्ट टू होम)" प्रतिस्थापित किया जाए।

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्र. 5591/124/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव।

**CHHATTISGARH ACT  
(No. 13 of 2010)**

**THE CHHATTISGARH ENTERTAINMENT DUTY AND ADVERTISEMENT  
TAX (AMENDMENT) ACT, 2010**

**An Act further to amend the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India, as follows :-

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax (Amendment) Act, 2010.</li> <li>(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.</li> <li>(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.</li> </ol>           | Short title, extent and commencement. |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. In sub-section (1) of Section 4-D of the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "Excise Commissioner" the words "Commissioner of Revenue Division" shall be substituted.</li> </ol> | Amendment of Section 4-D.             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. In the Principal Act, wherever word "Cable" occur, in place of that words "Cable/D.T.H. (Direct to Home)" shall be substituted.</li> </ol>   | Amendment in the said Act.            |



“बिजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक एटिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 238 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2010—भाद्र 12, शक 1932

---

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

क्रमांक 10378/206/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-08-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डॉ. पी. पाराशर, उप-सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 21 सन् 2010)

**छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2010**

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इक्सठबें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा।  
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।  
 (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 3 की उप-धारा (1) के परन्तुक में, शब्द “पचास ऐसे” के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये एवं शब्द “सिवाय” का लोप किया जाये।

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2010

क्रमांक 10378/206/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 21 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डॉ. पी. घाराशाह, उप-सचिव,


**CHHATTISGARH ACT**  
**(No. 21 of 2010)**

**THE CHHATTISGARH ENTERTAINMENT DUTY AND ADVERTISEMENT TAX  
(AMENDMENT ACT, 2010)**

**An Act further to amend the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax (Amendment) Act, 2010 (No. 21 of 2010).  
Short title, extent and commencement.
  
(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.  
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
  
2. In proviso to sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Entertainment Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), for the words "fifty paise" the words "fifty rupees" shall be substituted and the word "except" shall be omitted.  
Amendment of Section 3.



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 225 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 अप्रैल 2015 — चैत्र 19, शक 1937

---

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2015

क्रमांक 3226/डी. 123/21-अ/प्रासू./छ.ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-04-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 11 सन् 2015)

**छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2015**

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्र. 30 सन् 1936) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा।</li> <li>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।</li> <li>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।</li> </ol>   |
| धारा 3 का संशोधन.                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्र. 30 सन् 1936) की धारा 3 की उप-धारा (1) में, शब्द “शुल्क का भुगतान करेगा” के पश्चात् तथा कोलन चिन्ह “:” के पूर्व, शब्द “किन्तु वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खेले गये खेल/क्रीड़ा के मामले में, दस प्रतिशत की दर से मनोरंजन शुल्क, देय होगा” अंतःस्थापित किया जाये।</li> </ol> |

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2015

क्रमांक 3226/डी. 123/21-अ/प्रारू. /छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-04-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एनदब्ल्यूएस प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुषमा साबंत, अतिरिक्त सचिव।

**CHHATTISGARH ACT**  
**(No. 11 of 2015)**

**THE CHHATTISGARH ENTERTAINMENTS DUTY AND ADVERTISEMENTS  
TAX (AMENDMENT) ACT, 2015**

**An Act to further amend the Chhattisgarh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Entertainments Duty and Advertisements Tax (Amendment) Act, 2015.</li> <li>(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.</li> <li>(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.</li> </ol>                                     | Short title, extent and commencement. |
| 2. In sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), after the words "thirty percentum thereof" and before the punctuation colon ":", the words "but in case of game/sport played for commercial purpose, entertainment duty at the rate of ten percentum shall be payable" shall be inserted. | Amendment of Section 3.               |